



COM 315

B.Com. (VI<sup>th</sup> SEMESTER) EXAMINATION, 2023-24

COMMERCE

(Auditing II)

(CBCS Mode)

AFFIX PRESCRIBED  
RUBBER STAMP

**Paper ID**

(To be filled in the  
OMR Sheet)

Date (तिथि) : \_\_\_\_\_

**5472**

अनुक्रमांक (अंकों में) :

Roll No. (In Figures) :

अनुक्रमांक (शब्दों में) :

Roll No. (In Words) :

Time : 1:30 Hrs.

समय : 1:30 घण्टे

Max. Marks : 75

अधिकतम अंक : 75

नोट : पुस्तिका में 50 प्रश्न दिये गये हैं, सभी प्रश्न करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1.5 अंक का होगा।

**Important Instructions :**

1. The candidate will write his/her Roll Number only at the places provided for, i.e. on the cover page and on the OMR answer sheet at the end and nowhere else.
2. Immediately on receipt of the question booklet, the candidate should check up the booklet and ensure that it contains all the pages and that no question is missing. If the candidate finds any discrepancy in the question booklet, he/she should report the invigilator within 10 minutes of the issue of this booklet and a fresh question booklet without any discrepancy be obtained.

**महत्वपूर्ण निर्देश :**

1. अभ्यर्थी अपने अनुक्रमांक केवल उन्हीं स्थानों पर लिखेंगे जो इसके लिए दिये गये हैं, अर्थात् प्रश्न पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ तथा साथ दिये गये ओ०एम०आर० उत्तर पत्र पर, तथा अन्यत्र कहीं नहीं लिखेंगे।
2. प्रश्न पुस्तिका मिलते ही अभ्यर्थी को जाँच करके सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि इस पुस्तिका में पूरे पृष्ठ हैं और कोई प्रश्न छूटा तो नहीं है। यदि कोई विसंगति है तो प्रश्न पुस्तिका मिलने के 10 मिनट के भीतर ही कक्ष परिप्रेक्षक को सूचित करना चाहिए और बिना त्रुटि की दूसरी प्रश्न पुस्तिका प्राप्त कर लेना चाहिए।

1. Which legislation governs the qualification and appointment of auditors for limited companies in India ?
  - (A) Companies Act 1956
  - (B) Income Tax Act 1961
  - (C) Indian Contract Act 1872
  - (D) Securities and Exchange Board of India Act 1992
2. According to the section 139(5) of the companies Act 2013 an auditor in government company is appointed by :
  - (A) State Government
  - (B) Central Government
  - (C) Company Law board
  - (D) Comptroller and Auditor General
3. An auditor makes effort to detect mainly which type of fraud ?
  - (A) Misappropriation of goods
  - (B) Misappropriation of cash
  - (C) Frauds in books of accounts
  - (D) All of the above
1. भारत में सीमित कम्पनियों के लिए लेखा परीक्षकों की योग्यता और नियुक्ति को कौन सा कानून नियंत्रित करता है ?
  - (A) कम्पनी अधिनियम 1956
  - (B) आयकर अधिनियम 1961
  - (C) भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872
  - (D) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992
2. कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139(5) के अनुसार सरकारी कम्पनी में एक अंकेक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है ?
  - (A) राज्य सरकार
  - (B) केन्द्र सरकार
  - (C) कंपनी लॉ बोर्ड
  - (D) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
3. एक अंकेक्षक मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस प्रकार की धोखाधड़ी का पता लगाने का प्रयास करता है ?
  - (A) माल का दुरुपयोग
  - (B) नकद का दुरुपयोग
  - (C) बही-खातों में धोखाधड़ी
  - (D) उपरोक्त सभी

4. Under section 144 of the companies Act 2013, an auditor can render services as are approved by the :
- (A) Audit committee  
(B) BOD and Audit committee  
(C) BOD  
(D) BOD or Audit committee
5. The first auditor of a company is appointed by the Board of directors within how many days of the registration of the company ?
- (A) 30 days  
(B) 50 days  
(C) 60 days  
(D) 90 days
6. A statutory Auditor has a right of examining at any time to :
- (A) Books and accounts of the company  
(B) Books, accounts and documents of the company  
(C) Account Books, documents and vouchers of the company  
(D) Notices and documents of the company
4. कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 144 के तहत, एक अंकेक्षक \_\_\_\_\_ द्वारा अनुमोदित सेवाएं प्रदान कर सकता है।
- (A) लेखा परीक्षा समिति  
(B) बीओडी और लेखा परीक्षा समिति  
(C) बीओडी  
(D) बीओडी या लेखा परीक्षा समिति
5. किसी कंपनी का पहला अंकेक्षक कंपनी के पंजीकरण के कितने दिनों के भीतर निदेशक मण्डल द्वारा नियुक्त किया जाता है ?
- (A) 30 दिन  
(B) 50 दिन  
(C) 60 दिन  
(D) 90 दिन
6. एक वैधानिक लेखा परीक्षक को किसी भी समय जाँच करने का अधिकार है :
- (A) कंपनी की पुस्तकें और खाते  
(B) कंपनी की पुस्तकें, खाते और दस्तावेज  
(C) कंपनी की खाता पुस्तकें, दस्तावेज और वाउचर  
(D) कंपनी के नोटिस और दस्तावेज

7. Destruction of vouchers by auditor is :
- (A) Civil liability  
(B) Criminal liability  
(C) Other liability  
(D) None of the above
8. The liabilities for assistants negligence is :
- (A) Auditor's liability  
(B) Assistant's liability  
(C) Employer's liability  
(D) All of the above
9. Which of the following is called the Charter of the company ?
- (A) Memorandum of Association  
(B) Articles of Association  
(C) Prospectus  
(D) None of these
10. Table 'F' is the substitute of :
- (A) Memorandum of Association  
(B) Article of Association  
(C) Prospectus  
(D) Minute Book
7. अंकेशक द्वारा प्रमाणकों को नष्ट करना है :
- (A) दीवानी दायित्व  
(B) सापराध दायित्व  
(C) अन्य दायित्व  
(D) कोई नहीं
8. सहायकों की लापरवाही का दायित्व होता है:
- (A) अंकेशक का दायित्व  
(B) सहायकों का दायित्व  
(C) नियोक्ता का दायित्व  
(D) उपरोक्त सभी
9. निम्न में से कंपनी का चार्टर किसे कहते हैं?
- (A) पार्षद सीमा नियम  
(B) पार्षद अंतर्नियम  
(C) प्रविवरण  
(D) इनमें से कोई नहीं
10. टेबल 'F' विकल्प है :
- (A) पार्षद सीमा नियम  
(B) पार्षद अंतर्नियम  
(C) प्रविवरण  
(D) मिनट बुक

11. Which of the following is not a duty of the auditor regarding the audit of share capital ?
- (A) Verifying share issuances and transfers
- (B) Ensuring compliance with share capital requirements
- (C) Evaluating the effectiveness of shareholder meeting
- (D) Reporting on share capital changes accurately
12. Under which section of company's Act the remuneration of the auditor has been discussed?
- (A) Section 141
- (B) Section 142
- (C) Section 148
- (D) Section 150
13. By whom the special audit of a company is get done ?
- (A) Directors of the company
- (B) Shareholders
- (C) Debenture holders
- (D) Central government
11. शेयर पूंजी के ऑडिट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऑडिटर का कर्तव्य नहीं है ?
- (A) शेयर जारी करने और हस्तांतरण का सत्यापन करना
- (B) शेयर पूंजी आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करना
- (C) शेयर धारक बैठकों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना
- (D) शेयर पूंजी परिवर्तन पर सटीक रिपोर्टिंग
12. कंपनी अंकेक्षक के पारिश्रमिक का वर्णन कंपनी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किया गया है ?
- (A) धारा 141
- (B) धारा 142
- (C) धारा 148
- (D) धारा 150
13. कंपनी का विशेष अंकेक्षण कौन कराता है ?
- (A) कंपनी के संचालक
- (B) अंशधारी
- (C) ऋणपत्र धारी
- (D) केन्द्रीय सरकार

14. In partnership business the appointment of auditor is made :
- (A) On the basis of Agreement  
 (B) On the basis of statutory provision  
 (C) By CAG  
 (D) Any of the above
15. Under which section of the Indian Companies Act the branch auditors are appointed :
- (A) Section 139  
 (B) Section 140  
 (C) Section 143  
 (D) Section 145
16. The auditor has to enquire, under section 227(IA) into different aspects, related to shares allotted for cash for the purpose of auditor include :
- (A) Shares against whose allotment cash has actually been received  
 (B) Shares allotted for consideration other than cash  
 (C) Shares allotted against a debt payable  
 (D) All of them
14. साझेदारी व्यवसाय में अंकेक्षक की नियुक्ति होती है :
- (A) समझौता के आधार पर  
 (B) वैधानिक प्रावधान के आधार पर  
 (C) CAG के द्वारा  
 (D) उपरोक्त में से कोई भी
15. शाखा अंकेक्षक की नियुक्ति भारतीय कंपनी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत होती है?
- (A) धारा 139  
 (B) धारा 140  
 (C) धारा 143  
 (D) धारा 145
16. ऑडिटर को धारा 227(आईए) के तहत ऑडिटर के उद्देश्य के लिए नकद में आवंटित शेयरों से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं की जाँच करनी होगी :
- (A) वे शेयर जिनके आवंटन के विरुद्ध नकद वास्तव में प्राप्त किया गया है  
 (B) नकदी के अलावा अन्य प्रतिफल के लिए शेयर आवंटित  
 (C) देय ऋण के बदले आवंटित शेयर  
 (D) उपरोक्त सभी

17. The rights and duties of an auditor are covered under \_\_\_\_\_ of the companies Act 2013.
- (A) Section 141  
(B) Section 143  
(C) Section 145  
(D) Section 153
18. According to Rule 13 of the companies (Accounts) Rules, 2014, the following class or classes of companies shall be required to appoint an internal auditor or a firm of internal auditors, namely :
- (A) Every Company Registered in India  
(B) Every Private Company  
(C) Every Listed Company  
(D) Every Public Company
19. Report given by the auditor after the audit work is known as :
- (A) Qualified Report  
(B) Unqualified Report  
(C) Interim Report  
(D) Audit Report
17. एक ऑडिटर के अधिकार और कर्तव्य कंपनी अधिनियम 2013 के \_\_\_\_\_ के अंतर्गत आते हैं।
- (A) धारा 141  
(B) धारा 143  
(C) धारा 145  
(D) धारा 153
18. कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 13 के अनुसार, निम्नलिखित वर्ग या कंपनियों के वर्गों को एक आंतरिक लेखा परीक्षक या आंतरिक लेखा परिक्षकों की एक फर्म नियुक्त करने की आवश्यकता होगी :
- (A) भारत में पंजीकृत प्रत्येक कंपनी  
(B) प्रत्येक प्राइवेट कंपनी  
(C) प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी  
(D) प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी
19. ऑडिट कार्य के बाद अंकेक्षक द्वारा दी गयी रिपोर्ट कहलाती है ?
- (A) योग्य रिपोर्ट  
(B) अयोग्य रिपोर्ट  
(C) मध्यकाल रिपोर्ट  
(D) ऑडिट रिपोर्ट

20. Interim audit refers to an audit conducted :
- (A) In between two annual audits
- (B) In between two statutory annual audits within same accounting period
- (C) In between one statutory audit and an internal audit in the same accounting period
- (D) None of the above
21. Audit report is meant for the \_\_\_\_ of the company.
- (A) Shareholders
- (B) Creditors
- (C) Employees
- (D) Bankers
22. Section 143(12) of the companies Act state that any \_\_\_\_ of the company has to be reported to central government.
- (A) Fraud by officers or employees
- (B) Errors in books of account
- (C) Incomplete books of accounts
- (D) Qualified report
20. अंतरिम ऑडिट से तात्पर्य \_\_\_\_\_ आयोजित ऑडिट से है :
- (A) दो वार्षिक ऑडिट के बीच
- (B) एक ही लेखांकन अवधि के भीतर दो वैधानिक वार्षिक लेखा परीक्षाओं के बीच
- (C) एक ही लेखांकन अवधि में एक वैधानिक लेखा परीक्षा और एक आंतरिक लेखा परीक्षा के बीच
- (D) इनमें से कोई नहीं
21. ऑडिट रिपोर्ट कंपनी के \_\_\_\_\_ के लिए होती है।
- (A) शेयर धारक
- (B) लेनदार
- (C) कर्मचारी
- (D) बैंकर
22. कंपनी अधिनियम के धारा 143(12) में वर्णित है कि कंपनी के किसी भी \_\_\_\_\_ को केन्द्र सरकार को सूचित करना होगा।
- (A) अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी
- (B) खाते की पुस्तकों में त्रुटियाँ
- (C) अधूरे खाते
- (D) योग्य रिपोर्ट

23. An audit report is the final product of audit work by :
- (A) Audit staff  
(B) Auditor  
(C) Management  
(D) Internal auditor
24. The audit report should be signed in the personal name of the :
- (A) Audit staff  
(B) Auditor  
(C) Management  
(D) Internal auditor
25. A clean report is issued when, the auditor is satisfied with the :
- (A) Fairness of Balance Sheet and Profit & Loss account  
(B) Evidences, documents and explanation given by the clients  
(C) All the contents of the financial statements  
(D) All of the above
26. Audit report with reservations is known as :
- (A) Clean Report  
(B) Qualified Report  
(C) Adverse opinion  
(D) Disclaimer of opinion
23. एक ऑडिट रिपोर्ट ऑडिट कार्य का अंतिम उत्पाद है :
- (A) लेखा परीक्षा कर्मचारी  
(B) लेखा परीक्षक  
(C) प्रबंधक  
(D) आंतरिक लेखा परीक्षक
24. ऑडिट रिपोर्ट पर निम्नलिखित के व्यक्तिगत नाम से हस्ताक्षर होना चाहिए :
- (A) ऑडिट स्टाफ  
(B) लेखा परीक्षक  
(C) प्रबंधन  
(D) आंतरिक लेखा परीक्षक
25. एक स्वच्छ रिपोर्ट तब जारी की जाती है, जब लेखा परीक्षक निम्नलिखित से संतुष्ट होता है :
- (A) आर्थिक चिट्ठा तथा लाभ-हानि खाते की निष्पक्षता  
(B) उसके मुवक्किलों द्वारा दिये गये साक्ष्य, दस्तावेज और स्पष्टीकरण  
(C) वित्तीय विवरण की सभी सामग्री  
(D) उपरोक्त सभी
26. आरक्षण के साथ ऑडिट रिपोर्ट को जाना जाता है :
- (A) स्वच्छ रिपोर्ट  
(B) योग्य रिपोर्ट  
(C) प्रतिकूल राय  
(D) राय का अस्वीकरण

27. Auditor is mainly concerned with:
- Preparation of audit report
  - Critical examination of books of accounts
  - Verification of accounts prepared by others
  - All of the above
28. In the context of limited company audits, what is the significance of the Auditor's Report order 1988 ?
- It sets out the auditor's duties and responsibilities
  - It mandates specific audit procedures
  - It establishes guidelines for auditor independence
  - It regulates auditor qualifications
29. What is the purpose of a cost audit ?
- To determine the profitability of a company
  - To ensure compliance with cost accounting standards
  - To calculate the cost of goods sold
  - To identify cost-saving opportunities
27. लेखा परीक्षक मुख्य रूप से सम्बन्धित है :
- ऑडिट रिपोर्ट तैयार करना
  - खातों की पुस्तकों की आलोचनात्मक जाँच
  - दूसरों द्वारा तैयार किये गये खातों का सत्यापन
  - उपरोक्त सभी
28. सीमित कंपनी ऑडिट के संदर्भ में, ऑडिट रिपोर्ट आदेश 1988 का क्या महत्व है ?
- यह ऑडिटर के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निर्धारित करता है
  - यह विशिष्ट ऑडिट प्रक्रियाओं को अनिवार्य करता है
  - यह ऑडिटर की स्वतंत्रता के लिए दिशानिर्देश स्थापित करता है
  - यह ऑडिटर योग्यताओं को नियंत्रित करता है
29. लागत लेखा परीक्षा का उद्देश्य क्या है ?
- किसी कंपनी की लाभप्रदता निर्धारित करने के लिए
  - लागत लेखांकन मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना
  - बचे गये माल की लागत की गणना करने के लिए
  - लागत-बचत के अवसरों की पहचान करना

30. Under what circumstances is a cost audit typically required ?
- (A) For all companies listed on a stock exchange
- (B) For companies with a turnover exceeding a specified threshold
- (C) For companies operating in certain industries
- (D) For companies seeking tax exemptions
31. What does a cost audit report typically include ?
- (A) Financial statements
- (B) Costing methods and practices
- (C) Management's discussion and analysis
- (D) Auditor's opinion on profitability
32. What is the objective of an internal audit ?
- (A) To detect and prevent fraud
- (B) To evaluate the effectiveness of internal controls
- (C) To ensure compliance with company policies and procedures
- (D) All of the above
30. आमतौर पर किन परिस्थितियों में लागत लेखा परीक्षा की आवश्यकता होती है ?
- (A) स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध सभी कंपनियों के लिए
- (B) एक निर्दिष्ट सीमा से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए
- (C) कुछ उद्योगों में काम करने वाली कंपनियों के लिए
- (D) कर छूट चाहने वाली कंपनियों के लिए
31. लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट में आमतौर पर क्या शामिल होता है ?
- (A) वित्तीय विवरण
- (B) लागत निर्धारण के तरीके और प्रथाएं
- (C) प्रबंधन की चर्चा और विश्लेषण
- (D) लाभप्रदता पर लेखा परीक्षक की राय
32. आंतरिक लेखा परीक्षा का उद्देश्य क्या है ?
- (A) धोखाधड़ी का पता लगाने और उसे रोकने के लिए
- (B) आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना
- (C) कंपनी की नीतियों और प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करना
- (D) उपरोक्त सभी

33. What authority do internal auditors typically have within an organization ?
- (A) Authority to override management decisions  
 (B) Authority to hire and fire employees  
 (C) Authority to access all company records  
 (D) Authority granted by the board of dissectors
34. What is a statutory corporation in the context of auditing ?
- (A) A company regulated by the Companies Act  
 (B) A government owned entity established by statute  
 (C) A corporation listed on a stock exchange  
 (D) A non-profit organization
35. What is the primary responsibility of an auditor when auditing a bank ?
- (A) Verifying the accuracy of loan portfolio valuations  
 (B) Assessing compliance with banking regulations  
 (C) Reviewing internal control procedures  
 (D) Evaluating investment strategies
33. किसी संगठन के भीतर आंतरिक लेखा परीक्षकों के पास सामान्यतः क्या अधिकार होते हैं ?
- (A) प्रबंधन निर्णयों को रद्द करने का अधिकार  
 (B) कर्मचारियों को काम पर रखने और निकालने का अधिकार  
 (C) सभी कंपनी रिकॉर्ड तक पहुंचने का अधिकार  
 (D) निदेशक मण्डल द्वारा दिया गया अधिकार
34. ऑडिटिंग के संदर्भ में वैधानिक निगम क्या है ?
- (A) कम्पनी अधिनियम द्वारा विनियमित एक कंपनी  
 (B) कानून द्वारा स्थापित एक सरकारी स्वामित्व वाली इकाई  
 (C) स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध एक निगम  
 (D) एक गैर-लाभकारी संगठन
35. किसी बैंक का ऑडिट करते समय ऑडिटर की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है ?
- (A) ऋण पोर्टफोलियों मूल्यांकन की सटीकता की पुष्टि करना  
 (B) बैंकिंग नियमों के अनुपालन का आकलन करना  
 (C) आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं की समीक्षा करना  
 (D) निवेश रणनीतियों का मूल्यांकन करना

36. What is the relationship between internal auditors and statutory auditors ?
- (A) They are competitors  
 (B) They are collaborators  
 (C) They are independent of each other  
 (D) They are supervised by the same regulatory body
37. What is the significance of the audit of a non-profit organization?
- (A) To ensure transparency and accountability  
 (B) To maximize profits for shareholders  
 (C) To assess executive compensation  
 (D) To comply with regulatory requirements
38. What distinguishes the audit of a public sector undertaking from that of a private Company ?
- (A) Greater emphasis on profitability  
 (B) More extensive regulatory scrutiny  
 (C) Less stringent reporting requirements  
 (D) Limited access to financial records
36. आंतरिक लेखा परीक्षकों और वैधानिक लेखा परीक्षकों के बीच क्या संबंध है ?
- (A) वे प्रतिस्पर्धी है  
 (B) वे सहयोगी है  
 (C) वे एक-दूसरे से स्वतंत्र है  
 (D) उनकी देख-रेख एक ही नियामक संस्था द्वारा की जाती है
37. एक गैर-लाभकारी संगठन के ऑडिट का क्या महत्व है ?
- (A) पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना  
 (B) शेयरधारकों के लिए लाभ को अधिकतम करना  
 (C) कार्यकारी मुआवजे का आकलन करना  
 (D) नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करना
38. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के ऑडिट को निजी कंपनी के ऑडिट से क्या अलग करता है ?
- (A) लाभ-प्रदता पर अधिक जोर  
 (B) अधिक व्यापक नियामक जांच  
 (C) कम कठोर रिपोर्टिंग आवश्यकताएं  
 (D) वित्तीय रिकॉर्ड तक सीमित पहुँच

39. What is the primary focus of a tax audit ?
- (A) Evaluating the accuracy of tax returns
- (B) Assessing compliance with tax laws and regulations
- (C) Reviewing tax planning strategies
- (D) Analyzing tax implications of business decisions
39. टैक्स ऑडिट का प्राथमिक फोकस क्या है ?
- (A) कर रिटर्न की सटीकता का मूल्यांकन करना
- (B) कर कानूनों और विनियमों के अनुपालन का आकलन करना
- (C) कर नियोजन रणनीतियों की समीक्षा करना
- (D) व्यावसायिक निर्णयों में कर निहितार्थों का विश्लेषण करना
40. Which section of the companies Act 1956 empowers the auditor to access books and accounts ?
- (A) Section 228
- (B) Section 259
- (C) Section 278
- (D) Section 299
40. कंपनी अधिनियम 1956 की कौन सी धारा लेखा परीक्षक को पुस्तकों और खातों तक पहुँचने का अधिकार देती है ?
- (A) धारा 228
- (B) धारा 259
- (C) धारा 278
- (D) धारा 299
41. In the context of audit procedure, What is a departmental undertaking ?
- (A) A separate legal entity
- (B) A division within a larger organization
- (C) A government-owned corporation
- (D) A privately held subsidiary
41. लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के संदर्भ में, एक विभागीय उपक्रम क्या है ?
- (A) एक अलग कानूनी इकाई
- (B) एक बड़े संगठन के भीतर एक विभाजन
- (C) एक सरकारी स्वामित्व वाला निगम
- (D) एक निजी सहायक कंपनी

42. What distinguishes the responsibility of internal auditors from external auditors ?
- (A) Internal auditors focus on compliance, while external auditors focus on financial reporting
- (B) Internal auditors report to management while external auditors report to shareholders
- (C) Internal auditors are employees of the company while external auditors are independent
- (D) All of the above
43. Auditor has no lien on :
- (A) Audit note book
- (B) Audit working papers
- (C) Books of accounts of clients
- (D) All of the above
44. Internal auditor is appointed by :
- (A) The management
- (B) The shareholders
- (C) The government
- (D) The statutory body
42. आंतरिक अंकेक्षक व बाह्य अंकेक्षक में क्या अंतर है ?
- (A) आंतरिक अंकेक्षक अनुपालन पर ध्यान देते हैं जबकि बाह्य अंकेक्षण वित्तीय रिपोर्टिंग पर ध्यान देते हैं।
- (B) आंतरिक अंकेक्षक प्रबंधन को रिपोर्ट करते हैं जबकि बाह्य अंकेक्षक शेयरधारकों को रिपोर्ट करते हैं
- (C) आंतरिक अंकेक्षक कंपनी के कर्मचारी होते हैं जबकि बाह्य अंकेक्षक स्वतंत्र होते हैं
- (D) उपरोक्त सभी
43. अंकेक्षक का कोई ग्रहणाधिकार नहीं है :
- (A) ऑडिट नोट बुक पर
- (B) ऑडिट वर्किंग पेपर पर
- (C) ग्राहकों के खातों की किताबों पर
- (D) उपर्युक्त सभी पर
44. आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति होती है :
- (A) प्रबंधन द्वारा
- (B) अंशधारकों द्वारा
- (C) सरकार द्वारा
- (D) वैधानिक निकाय द्वारा

45. The company's auditor is expected to give :
- (A) His expert opinion about the accounts
- (B) A factual position about the accounts
- (C) A critical review of the accounts
- (D) Financial assistance
46. Concurrent audit is a part of :
- (A) Internal check system
- (B) Continuous audit
- (C) Internal audit system
- (D) Financial audit
47. Who among the following can be appointed as the auditor of company ?
- (A) A partner or the director of the company
- (B) A person of unsound mind
- (C) Mr. 'Y' who owes ₹500 to company
- (D) Mr. 'Z' who holds the 'CA' certificate
45. कंपनी के अंकेशक से देने की उम्मीद की जाती है :
- (A) खातों के बारे में उनकी विशेषज्ञ राय
- (B) खातों के बारे में तथ्यात्मक स्थिति
- (C) खातों की आलोचनात्मक समीक्षा
- (D) वित्तीय सहायता
46. समवर्ती अंकेशन का एक भाग है :
- (A) आंतरिक जाँच प्रणाली
- (B) सतत अंकेशन
- (C) आंतरिक अंकेशन प्रणाली
- (D) वित्तीय अंकेशन
47. निम्नलिखित में से किसे कंपनी का अंकेशक नियुक्त किया जा सकता है ?
- (A) कंपनी का साझेदार या निदेशक
- (B) विक्रत मस्तिष्क वाला व्यक्ति
- (C) श्री 'Y' जिन पर कंपनी का ₹० 500 बकाया है
- (D) श्री 'Z' जिनके पास सी ए प्रमाणपत्र है

48. Audit of Banks is an example of:
- (A) Statutory Audit  
 (B) Balance Sheet Audit  
 (C) Concurrent Audit  
 (D) All of the above
49. Cost Audit under section 233(B) of the company Act is \_\_\_\_\_.
- (A) Voluntary  
 (B) Compulsory  
 (C) Advisable  
 (D) Avoidable
50. An auditor can be held liable under the Chartered Accountant Act 1949 for :
- (A) Negligence  
 (B) Criminal offence  
 (C) Professional misconduct  
 (D) Breach of contract
48. बैंको के अंकेक्षण का एक उदाहरण है :
- (A) वैधानिक अंकेक्षण  
 (B) आर्थिक चिट्ठा अंकेक्षण  
 (C) समवर्ती अंकेक्षण  
 (D) उपर्युक्त सभी
49. कंपनी अधिनियम की धारा 233 (बी) के तहत लागत अंकेक्षण \_\_\_\_\_ है।
- (A) स्वैच्छिक  
 (B) अनिवार्य  
 (C) उपयुक्त  
 (D) परिहार्य
50. एक अंकेक्षक को \_\_\_\_\_ के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम 1949 के अंतर्गत उत्तरदायी ठहराया जा सकता है :
- (A) लापरवाही  
 (B) अपराध  
 (C) व्यावसायिक कदाचार  
 (D) अनुबंध का उल्लंघन

\*\*\*\*\*